



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 331 राँची, मंगलवार, 27 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

7 मार्च, 2018 ई०

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/90/2017-1090-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है धनबाद/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के धनबाद/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव ।